

## नकली गुलाब जल बनाने का कारखाना का भंडाफोड़

Publish Date:Thu, 28 Nov 2019 06:15 AM (IST)



भोजपुर जिला के संदेश थाना क्षेत्र अन्तर्गत संदेश टोला गांव में बुधवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ब्रांडेड के नाम पर नकली गुलाब जल का कारखाना संचालित किए जाने क

आरा। भोजपुर जिला के संदेश थाना क्षेत्र अन्तर्गत संदेश टोला गांव में बुधवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर ब्रांडेड के नाम पर नकली गुलाब जल का कारखाना संचालित किए जाने के मामले का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान एक घर से भारी मात्रा में नकली व फर्जी डाबर कंपनी का गुलाब जल का शीशी, खाली शीशी, ढक्कन एवं भारी संख्या में रैपर बरामद किया गया। इसके अलावा 180 एमएल का छह बोतल विदेशी शराब भी बरामद किया गया। साथ ही दो को धर दबोचा गया। इस मामले प्रमुख जांचकर्ता के लिखित आवेदन पर संदेश थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी गुप्त सूचना दी गई थी कि संदेश क्षेत्र में डाबर कंपनी के नाम पर नकली व फर्जी डाबर गुलाब जल बनाया जा रहा है। जिसके आधार पर संदेश थानाध्यक्ष सुदेह कुमार ने संदेश टोला स्थित योगेन्द्र चौधरी के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घर से 10485 शीशी नकली गुलाब जल, 1000 ढक्कन, 9637 रैपर एवं काफी संख्या में खाली शीशी बरामद किया गया। इसके अलावा 180 एमएल का छह बोतल विदेशी शराब, 20 लीटर देशी शराब भी बरामद किया गया। साथ ही इस धंधे में संलिप्त रोहन चौधरी, एवं दिनेश चौधरी दोनों पिता योगीन्द्र चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सम्बंध में दो अलग-अलग प्राथमिक थाना में दर्ज किया गया है। डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रमुख जांचकर्ता चन्देश्वर सिंह ने बताया कि बरामद नकली डाबर गुलाब जल का बाजार मूल्य लगभग चार लाख रुपये का होगा।

Posted By: **Jagran**

Source: <https://www.jagran.com/bihar/bhojpur-fake-rose-water-making-factory-busted-19795632.html>